



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1688]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2011/चाद्र 8, 1933

No. 1688]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2011/BHADRA 8, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2011

का.आ. 2025(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ) तारीख 26 अप्रैल 2002 द्वारा असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 36 के 0.000 कि.मी. से 38.000 कि.मी. (नगांव - दाबोका सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 के 164.395 से 274.000 कि.मी (गुवाहाटी - नगांव सेक्शन , गुवाहाटी बाईपास सहित) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर्शों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 पर चार लेन के रोहा - नगांव सेक्शन , 254.00 कि.मी. से 262.725 कि.मी. और नगांव बाईपास जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 के 262.725 कि.मी से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 36 के 5.500 कि.मी पर मिलता है , के उपयोग के लिए निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर फीस उदगृहीत और संगृहीत की जाएगी और प्राधिकरण को या तो अपने पदधारियों के माध्यम से या संविदाकार के माध्यम से उक्त फीस संग्रहित करने हेतु प्राधिकृत करती है अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूर्विग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (चार से छह धुरी)	3.45
6.	अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण:-

- वर्ष 2007-08 के लिए स्थानीय निजी यातायात के लिए मासिक पास की दर 150 रुपये (एक सौ पचास रुपये) है, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है।
- राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा अर्थात् :-

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- जिस जिले में फीस प्लाजा पड़ता है वहां रजिस्टर किए गए वाणिज्यिक यानों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के यानों के लिए निर्धारित दर का 50% होगा परन्तु ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई उपमार्ग अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- जो यांत्रिक यान, नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुमत भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे होंगे, उन्हें उन दरों पर शुल्क का भुगतान करना होगा जो अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता हो और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का हक नहीं होगा जब तक कि ऐसे मशीनी वाहनों से अधिक भार को हटा न दिया गया हो।

5. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनकी अनुमत्य सड़क, छूट - प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि की परिभाषाएं वह परिभाषाएं होंगी जो नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगी।

6. फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित अवस्थान के पथकर प्लाजा के सामने ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा:-

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
असम राज्य में, जिला नगांव, रोहा गांव के निकट, कि.मी 254.400	8.726

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त, दस करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक लागत वाले बाईपास का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर बाईपास की विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु आधार दर का डेढ़ गुना फीस शोध्य और संदेय होगी।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है
असम राज्य में, जिला नगांव, रोहा गांव के निकट, कि.मी 254.400	15.942

[फा. सं. भाराप्र/13013/592/सी.ओ./10-11/जीसी-नगांव (नगांव बाईपास)]

बी. बी. मोहपात्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2011

S.O. 2025(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, entrusted the stretches from km. 0.000 to km. 38.000 (Nagoan-Daboka section) of National Highway No. 36 and km. 164.395-km. 274.000 (Guwahati-Nagoan section including Guwahati Bypass) of National Highway No. 37 both in the State of Assam, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on category of mechanical vehicles specified in column 2 of Table, for the use of the four lane Roha - Nagoan from Km 254.00 - Km 262.725 of National Highways No 37 and Nagoan Bypass taking of at Km 262.725 of National

Highway No 37 and merging at Km 5.500 of National Highway No 36 at the base rate specified in column 3 of Table on the National Highway No. 36 and 37 in the State of Assam and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE

Sl. No.	Type of Vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08. (In rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck. (Two Axles)	2.20
4.	Three - axle commercial vehicles.	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles. (seven or more axles) .	4.20

Note :-

1. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 150.00 (One Hundred fifty Rupees) for the base year 2007-08 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

2. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	fifty	One month from date of payment

3. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

4. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

5. Definitions of category of mechanical vehicles, its permissible road, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definition specified in the Rules.

6. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following toll plaza for net length specified such Toll Plaza:

Location of Toll plaza (Chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable
km 254.400 near village Roha, Distt Nagaon in the State of Assam.	8.726

7. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing Rs. 10 crore or more at the following Toll Plaza(s) at one and half times the base rate for the length of Bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll plaza (Chainage)	Length of Bypass(in Km) for which additional Fee is payable
km 254.400 near village Roha, Distt Nagaon in the State of Assam.	15.942

[F. No. NHAI/13013/592/CO/10-11/GC-Nagoan (Nagoan Bypass)]

B. B. MOHAPATRA, Director

3318GI/11-2